



बिहार गजट

असाधारण अंक

बिहार सरकार द्वारा प्रकाशित

14 भाद्र 1935 (श0)
(सं0 पटना 698) पटना, बृहस्पतिवार, 5 सितम्बर 2013

मंत्रिमंडल सचिवालय विभाग

अधिसूचना

26 जुलाई 2013

विषय:—राज्य में जिला/अनुमंडल/प्रखण्ड/अंचल के पुनर्गठन के संबंध में गठित 'मंत्रियों के समूह' को पुनर्गठित करने के संबंध में।

सं0 मं०—01/मंत्रिपरिषद्—22/2011/1027—राज्य के जिला/अनुमंडल/प्रखंड/अंचल के पुनर्गठन के संबंध में मंत्रिमंडल सचिवालय विभाग के अधिसूचना सं० 3241, दिनांक 29.09.2008, अधिसूचना सं० 216, दिनांक 18.02.2011, अधिसूचना सं० 509, दिनांक 14.04.2011 एवं अधिसूचना सं० 44, दिनांक 10.01.2012 के द्वारा उप मुख्यमंत्री की अध्यक्षता में 'मंत्रियों के समूह' का गठन किया गया था, जो कि निम्नांकित है :—

(i)	उप मुख्यमंत्री	—	अध्यक्ष
(ii)	मंत्री, ग्रामीण विकास	—	सदस्य
(iii)	मंत्री, राजस्व एवं भूमि सुधार	—	सदस्य
(iv)	मंत्री, जल संसाधन	—	सदस्य
(v)	मंत्री, पथ निर्माण	—	सदस्य

2. सम्यक विचारोपरान्त राज्य में जिला/अनुमंडल/प्रखंड/अंचल के पुनर्गठन के संबंध में पूर्व में गठित 'मंत्रियों के समूह' को आंशिक रूप से परिवर्तित करते हुए निम्न प्रकार से पुनर्गठित किया जाता है :—

(i)	मंत्री, जल संसाधन	—	अध्यक्ष
-----	-------------------	---	---------

(ii)	मंत्री, राजस्व एवं भूमि सुधार	—	सदस्य
(iii)	मंत्री, ग्रामीण विकास	—	सदस्य

3. उपर्युक्त कड़िका—'2' से संबंधित विभागों के प्रधान सचिव/सचिव, 'मंत्रियों के समूह' की बैठकों में सहायतार्थ उपस्थित रहेंगे।

4. मंत्रियों के समूह को सचिवालय सहायता ग्रामीण विकास विभाग उपलब्ध करायेगा।
आदेश :- आदेश दिया जाता है कि इसे 'बिहार गजट' में प्रकाशित किया जाय।

बिहार-राज्यपाल के आदेश से,
विनोद कुमार झा,
सरकार के संयुक्त सचिव।

अधीक्षक, सचिवालय मुद्रणालय,
बिहार, पटना द्वारा प्रकाशित एवं मुद्रित।
बिहार गजट (असाधारण) 698-571+100-डी0टी0पी0।
Website: <http://egazette.bih.nic.in>